

RKCL विद्यार्थियों एवं अभिभावकों हेतु आवश्यक सूचना

RKCL कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश लेने के इच्छुक आवेदक कृपया अपना प्रवेश अधिकृत ज्ञान केंद्र पर ही लें | ज्ञान केन्द्रों की सूची www.rkcl.in पर उपलब्ध है तथा ज्ञान केंद्र से सम्बंधित निम्न जानकारी आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें |

1. प्रवेश के समय ज्ञान केंद्र का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें अंकित पता व ज्ञान केंद्र का कोड अवश्य जांच लें |
2. ज्ञान केंद्र पर प्रवेश के समय निर्धारित फीस भुगतान करने के पश्चात कंप्यूटर-जनित रसीद अवश्य प्राप्त करें तथा रसीद पर प्रिंट नाम, रसीद संख्या व ज्ञान केंद्र का कोड अवश्य जांच लें |
3. RS-CIT कोर्स हेतु आवेदन फॉर्म पर अपना नाम, ई-मेल आई डी एवं मोबाइल नंबर साफ अक्षरों में भरें व सुनिश्चित करें कि ज्ञान केंद्र ने वही मोबाइल एवं ई-मेल आवेदन फॉर्म में भरा है ताकि समय पर आवश्यक सूचना आप तक पहुंच सके |
4. ज्ञान केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध है कि नहीं सुनिश्चित कर लें |

विधार्थी प्रशिक्षण के दौरान निम्न लिखित दिशा निर्देश का पालन ITGK के माध्यम से करना सुनिश्चित करें :-

1. विधार्थी को RS-CIT पाठ्यक्रम में अपना प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए ITGK से अपना Unique Learner Code प्राप्त करना चाहिए |
2. विधार्थी को अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस पर कक्षा में प्रवेश से पहले एवं कक्षा से जाते समय बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से सफलता पूर्वक दर्ज करनी अनिवार्य है | जिस विधार्थी की आने या जाने दोनों में से एक ही उपस्थिति दर्ज हुई होगी वह उपस्थिति मान्य नहीं होगी |
3. विधार्थी को RS-CIT पाठ्यक्रम ITGK के माध्यम से कम्प्यूटर पर लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (ERA) से सिखाया जाता है जिस के उपयोग के लिए विधार्थी को Login ID तथा Password उपलब्ध कराया जाता है |

4. विद्यार्थी लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर (ERA) में अध्ययन करते समय अपनी Photo एवं नाम का अवलोकन कर लें | अगर इस में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाये तो प्रवेश के सात (7) दिवस के भीतर सही कराले |
5. RS-CIT पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध रूप से बनाया गया है जिस से विद्यार्थी को पाठ्यक्रम सरलता से सीखने एवं समझने में आसानी रहती है | इस हेतु विद्यार्थी को पाठ्यक्रम क्रमबद्ध रूप से ही पूर्ण करना वांछनीय है |
6. RS-CIT पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का है जिस में उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को 12 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा विद्यार्थी मुख्य परीक्षा से वंचित रह जायेगा |
7. RS-CIT पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यार्थी को 200 व्यवहारिक प्रश्न समय - समय पर ERA के माध्यम से (बिंदु 3) पाठ्यक्रम की अवधि में हल करने होते हैं |
8. विद्यार्थी एवं अभिभावकों को समय - समय पर ITGK से विद्यार्थी की उपस्थिति तथा आंतरिक मूल्यांकन की स्थिति से अवगत रहना चाहिये एवं विद्यार्थी की उपस्थिति तथा आंतरिक मूल्यांकन ITGK के माध्यम से RKCL Server पर अपलोड करना सुनिश्चित करे |

प्रत्येक आवेदक प्रवेश से पूर्व व प्रशिक्षण के दौरान उपरोक्त वर्णित दिशा निर्देश का पालन करें। विद्यार्थी किसी अनाधिकृत केंद्र पर प्रवेश लेता है या उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है तो इसके परिणाम की जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी |

प्रबंध निदेशक (राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लिमिटेड)